



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित


7 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं० पटना 512) पटना, बुधवार, 28 जून 2023

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश  
27 जून 2023

सं० अ०स०क०-01-03/2023-116—बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-2590, दिनांक 12.07.2022, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-15001, दिनांक 26.08.2022 एवं विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-50, सह-पठित ज्ञापांक-652, दिनांक 03.03.2023 के आलोक में प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक को निम्न शर्तों के साथ वेतनमान 19900-63200/- लेवल-02 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर योगदान की तिथि से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना में नियुक्त किया जाता है:-

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम       | आरक्षण कोटि | गृह जिला | फोटो   | योगदान की तिथि | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|-------------------|-------------|----------|--|----------------|-----------|
| 1        | 2               | 3                 | 4           | 5        | 6  | 7              | 8         |
| 1.       | श्री अशोक कुमार | श्री विनोद प्रसाद | पिछड़ा वर्ग | नालन्दा  |  | 30.08.2022     |           |

2. श्री अशोक कुमार, नव-नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को इस शर्त के साथ नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है कि श्री अशोक कुमार के विरुद्ध लंबित अपराधिक वाद संख्या-ABP639/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम न्यायिक निर्णय (Adjudication) से यह नियुक्ति प्रभावित होगी अथवा इसके अधीन होगी। यह नियुक्ति पत्र सामान्य

प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. नव-नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी।
4. नव-नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक के द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में यदि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. नव-नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की सेवा "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग" (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2006, संशोधित नियमावली-2011, 2014, 2016 एवं 2017 के अधीन रहेगी।
6. तत्कालिन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6216 दिनांक 29.06.2006 की कंडिका-04, 10 एवं 11 की सेवा शर्तें, वेतन वृद्धि, सम्पुष्टि एवं वरीयता निर्धारण के मामले में लागू रहेंगी।
7. नव-नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल में) अनिवार्य रूप से कार्यालय में समर्पित करेंगे।
8. दिनांक 01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।
9. इन पदों पर होने वाले व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के बजट मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-090-सचिवालय उपशीर्ष-0011-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विपत्र कोड-30-2251000900011 वेतनादि मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन,  
अहमद महमुद,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 512-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>